

ANNEXURE - I

Self-Declaration Format

I \_\_\_\_\_, Father/Mother of Master/Miss \_\_\_\_\_ (complete address), do hereby  
age \_\_\_\_\_ years, resident of \_\_\_\_\_  
declare that the information given in admission form of the admission in Kendriya Vidyalaya,  
\_\_\_\_\_ and in the enclosed documents is true to the best of my knowledge and belief and  
nothing has been concealed therein. I am well aware of the fact that if the information given by me is  
proved false / not true at any point of time, admission will be cancelled and I will be liable to legal actions as  
per guidelines of KVS and any benefit accrued by me or my ward shall be summarily cancelled.

Date:-

Place:

Signature of the Parent/Guardian

10

## **KENDRIYA VIDYALAYA DEOGARH**

**EXCLUSIVELY FOR ADMISSION IN KV DEOGARH 2020-2021**

**THE FOLLOWING DOCUMENTS MUST BE KEPT READY FOR SUBMISSION AND VERIFICATION**

**INCASE OF YOUR CHILD IS PROVISIONALLY SELECTED FOR ADMISSION IN KVS 2020-21**

1. **Print out copy** of the **online registration form**.
2. **Birth certificate** of the child.
3. **Blood group certificate** of the child.
4. **Aadhar card** of the child.
5. **Two passport size coloured** photograph of the child.
6. **Parent's service certificate & payslips** to be submitted in **original**.(please download the proforma of service certificate for government employees only)
7. **Parent's transfer details** to be submitted in **original** (please download the proforma of service certificate for government employees only)
8. **Residential address proof & ID proof** of the parents.(**Electric bill, Telephone bill etc**)
9. **Declaration of the distance**(please download the proforma)
10. **Caste certificate** in the name the child ( If the child is not having the caste certificate in his/her name then the certificate in the name of the parent will be considered . However they will be required to submit the certificate in the name of the child within three months of the admission)
11. **EWS Certificate** issued by an officer not below the rank of a **Tahsildar**. ( For those have mentioned themselves as coming **under EWS** category)
12. **BPL Card** for those who have applied under BPL category. ( Please note that Ration card will not be considered as a **proof of BPL**)
13. **Physical Disability Certificate** issued by competent authority. (For those who have applied **under "PH"** category)
14. **Affidavit from the executive magistrate**-To be submitted in original in case of the child selected for admission **under Single Girl Child quota**.

### **NOTE:**

1. **One set of the above mentioned documents to be submitted at the school.(Xerox & self-attested )**
2. **Documents such as Parent' Service certificate & payslip, parent's Transfer details and Affidavit from the executive magistrate (For single girl child) to be submitted at the school in Original.**

**PRINCIPAL**

KENDRIYA VIDYALAYA DEOGARH

ADMISSION NOTICE 2020-21

ADMISSION SCHEDULE FOR CLASS II to IX

OFFLINE REGISTRATION STARTS	20 TH JULY
LAST DATE OF REGISTRATION	25 JULY
DECLARATION OF LIST FOR CLASS 2 ONWARDS	29 JULY
ADMISSION DATE	30 TH JULY TO 7 AUGUST

NOTE- REGISTRATION OF OUTSIDER STUDENTS WILL ONLY BE DONE IF VACANCY EXISTS.

PRINCIPAL

PRINCIPAL

## DECLARATION BY THE PARENTS

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी में सत्य है ।  
I hereby declare that the above information furnished by me are correct to the best of my knowledge.  
मैं विद्यालय नियमों से प्रतिबद्ध रहूंगा/रहूंगी । I shall abide by the rules of the Vidyalaya.

Date .....

Signature of Parents

### FOR THE OFFICE USE ONLY

1. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने आवेदन-पत्र और सम्बद्ध कागजातों की जांच कर ली है ।  
Certified that I have checked the application form and the relevant papers are found in order.

2. सम्बद्ध कागजातों के निरीक्षणोपरांत एवम् शुल्क प्राप्तोपरांत कक्षा ..... वर्ग ..... में प्रवेश दे ।  
Please admit ..... to class ..... section ..... after  
checking the relevant papers and realise the dues.

Admission Incharge

Date .....

PRINCIPAL

दाखिला दिया गया Admitted to Class ..... Section .....

प्राप्त धन का विवरण

Details of amount received :

शुल्क रसीद संख्या

तिथि

निर्गत

Fee Receipt No. ....

Dated..... issued

प्रवेश शुल्क

शिक्षा शुल्क

Admission Fee .....

Tuition Fee .....

छात्र निधि

विज्ञान शुल्क

Pupils Fund .....

Science Fee .....

योग रु०

Total Rs. ....

कक्षा उपस्थिति पंजिका में नाम दर्ज किया गया ।

Name has been entered in the Class Attendance Register.

Class Teacher

प्रमाणित किया जाता है कि समस्त प्रविष्टियां छात्र पंजिका में दर्ज की गई एवम् शुल्क का भुगतान इस कार्यालय/कक्षा  
अध्यापक के द्वारा प्राप्त किया गया ।

Certified that all the entries have been made in the Scholar's register and the dues have been realised by  
Office / Class-Teacher.

विद्यार्थी की छात्र पंजिका संख्या

खण्ड

है ।

The S.R. No. of the student is ..... Vol. ....

Date .....

Office Incharge

FILE

Date .....

PRINCIPAL

### CHECK LIST OF DOCUMENTS

Fresh

ADM Form No. : .....

Date of Birth Certificate : .....

Residence Proof : .....

Blood Group : .....

Affidavit (if any) : .....

Counter signed TC (V onwards) : .....

KV/Army TC

Original TC No. : .....

Dated : .....

Duplicate Copy of TC : .....

Movement Order : .....

RO Verification (if any) : .....

Service Certificate : .....



# केन्द्रीय विद्यालय Kendriya Vidyalaya

## प्रवेश के लिए प्रार्थनापत्र APPLICATION FOR ADMISSION

क्र. सं. No.

1. विद्यार्थी का पूरा नाम Name of Student .....
2. ईश्वरी संवत् में जन्म तिथि (अंकों में)  
Date of Birth (in figures) .....
3. आयु (प्रमगार्थीन वर्ष की 1 अप्रैल को) वर्ष माह दिन  
Age as on 1st April of the Year) Year Month Days .....
4. राष्ट्रियता Nationality .....
5. माता-पिता का ब्यौरा : माता पिता  
Details of Parents : Mother Father .....
- (i) पूरा नाम Full Name .....
- (ii) व्यवसाय Occupation .....
- (iii) कार्यालय का नाम, पूरा पता व दूरभाष संख्या  
Name of office and full address with Tel. No. ....
- (iv) पूर्ण आवासीय पता व दूरभाष संख्या  
Full residential address with Tel. No. ....
- (v) मूल वेतन सम्बद्ध वर्ष की 1 अप्रैल को  
Basic pay as on 1st April of the year .....
- (vi) प्रमगार्थीन वर्ष के 31 मार्च तक पिछले  
7 वर्षों में हुए स्थानान्तरणों की संख्या  
No. of transfers during last 7 years .....
- (vii) माता-पिता की श्रेणी Category of parent .....
6. स्थानीय अभिभावक का पता (यदि हो)  
Name & address of local guardian (if any) .....
7. अन्तिम विद्यालय जहां पढ़ा हो  
Name & address of the school last attended with class .....
8. क्या यह केन्द्रीय विद्यालय था या मान्यता प्राप्त/अमान्यता प्राप्त विद्यालय था  
Whether it was a Kendriya Vidyalaya, Recognised/Unrecognised School .....
9. विगत परीक्षा परिणाम Result of last examination .....
- अंकों का प्रतिशत Percentage of marks .....
10. जिस कक्षा में प्रवेश चाहिए Class to which admission is sought .....
11. लिये जान जाने वाले प्रस्तावित विषय  
Subject proposed to offer .....
12. क्या स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र संलग्न है ? हां/नहीं  
Whether the transfer certificate is attached ? Yes No .....
13. स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की संख्या व तिथि  
No. & Date of transfer certificate .....
14. मातृ भाषा Mother tongue ..... गृह नगर Home Town .....
15. क्या विद्यार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति से है ?  
Whether the student belongs to Scheduled Caste / Tribe .....

P.T.O.